



CORDS CABLE INDUSTRIES LTD.

REGD. OFFICE : 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg,
Near Okhla Industrial Area Phase-III,
Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020
Tel : +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-40551281
Website : www.cordscable.com ; Email : cci@cordscable.com
CIN : L74999DL1991PLC046092

Date: 06.11.2019

Listing Department (Compliance Cell), National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051	Listing Department (Compliance Cell), Bombay Stock Exchange Ltd. Floor 25, PJ Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001
---	---

Sub. : **Newspaper Publication regarding Intimation of Board Meeting**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of news paper publication regarding intimation of board meeting to consider, discuss and approve inter alia,

- The Un-Audited Financial Results along with Limited Review Report by the statutory auditors of the company for the Second Quarter / Half Year ended on September 30, 2019.
- Statement of Assets and Liabilities for the half year ended on September 30, 2019 and other items as per the agenda.

In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company was closed for all Directors, Insiders, Designated Employees of the Company and their immediate relatives with effect from **October 01, 2019** and the said window shall remain closed till 48 hours after the declaration of the Un-audited Financial Results for the Second Quarter / Half Year ended September 30, 2019, to the Stock Exchanges.

Kindly take the same on records.

Thanking you.

Yours faithfully,

FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

For Cords Cable Industries Ltd.


GARIMA ARORA
Company Secretary

Works :

(UNIT I) : A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Chopanki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301707 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003177
(UNIT II) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7230003176

FINANCIAL EXPRESS



ETT LIMITED

CIN: L22122DL1993PLC123728
 Regd. Office: 17, Hemkunt Colony,
 New Delhi - 110 048,
 T & F: +91 456 7575
 E: secretarial@etgroup.in,
 W: www.etgroup.in

Notice is hereby given in terms of Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, November 14, 2019 at 4:00 P.M. at Express Trade Towers 3, Plot no. 79, Sector 34, Gurugram, Haryana 122001 inter-alia, to consider and take on record the unaudited financial results of the Company for the quarter ended September 30, 2019.

for ETT Limited
 Sd/-
 Punit Sharma
 Place: New Delhi Compliance Officer

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409
 Regd. Off: D-15 Pamphos Enclave,
 Greater Kailash-1 New Delhi-110048
 Phone: +91-11-45210051,
 E-mail: alliance.intltd@rediffmail.com;
 Website: www.aiiml.in

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Wednesday, 13th day of November, 2019, inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended on September 30, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <https://www.aiiml.in/> and the website of BSE <http://www.bseindia.com/>.

For Alliance Integrated Metaliks Limited
 Sd/-
 Daljit Singh Chahal
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019
 DIN: 03331560

NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L24339HR1984PLC040797
 Regd. Off: Lotus Green City Sector 23 & 24,
 Bhiwadi Alwar Bypass 75 MTR, Road
 Dharuhera Rawari 123401
 Phone: +91-7419885077,
 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com;
 Website: www.newtimeinfra.in

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12th day of November, 2019, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <https://www.newtimeinfra.in/> and the website of BSE <http://www.bseindia.com/>.

For Newtime Infrastructure Limited
 Parvinder Kapoor
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019
 DIN: 03456053

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

CIN: L51503DL1985PLC020195
 Regd. Off: D-15 Pamphos Enclave,
 Greater Kailash-1 New Delhi-110048
 Phone: +91-11-45210051,
 E-mail: adhbhut.inltd@rediffmail.com;
 Website: www.adhbhutinfra.com

Pursuant to the Regulation 29(1)(a), read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Tuesday, the 12th day of November, 2019, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019.

In accordance with the applicable Regulations of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company will remain closed for Officers, Designated Employees and Connected Persons, till 48 (Forty Eight) hours after the declaration of Financial Results for the Quarter and Half Year ended on September 30, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <https://www.adhbhutinfra.com/> and the website of BSE <http://www.bseindia.com/>.

For Adhbhut Infrastructure Limited
 ANUBHAV DHAM
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019
 WHOLETIME DIRECTOR

CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Okhla Industrial Area Phase-II, Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, Tel: 011-40551200
 *Fax No. 011-40551281 *Website: www.cordscable.com
 *E-mail: cci@cordscable.com
 *CIN: L74999DL1991PLC048092

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 189th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 12, 2019 at 12:00 noon to consider and approve, inter alia,

- The Un-Audited Financial Results along with Limited Review Report for the Second Quarter/Half Year ended on September 30, 2019.
- The Statement of Assets and Liabilities for the Half Year ended on September 30, 2019.

The above information is also available on the website of the company viz. www.cordscable.com and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company was closed for all the designated persons and their immediate relatives (as defined in the Code) from October 01, 2019 till 48 hours after the declaration of the financial results of the Company for the Second Quarter/Half Year ended September 30, 2019.

By order of the Board of Directors
 For Cords Cable Industries Limited
 Sd/-
 Garima Pant
 Place: New Delhi
 Date: November 05, 2019
 Company Secretary

NEERAJ PAPER MARKETING LTD.

CIN: L74899DL1993PLC0066194
 Regd. Office: 218-222, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44 Pitampura, Delhi - 110034. Website: www.neerajpaper.com
 Email: mansi@neerajpaper.com
 Landline: +91-11-47527700

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 13th day of November, 2019, at 11:00 a.m. at the registered office of the company inter-alia, to consider, approve and take on record the Un audited Financial Results of the Company for the half year and quarter ended 30.09.2019.

For this purpose the trading window for director/officer/designated employees/ Promoter covered under the code of conduct for prevention of insider Trading has been already closed with effect from 1st October 2019 till 15th November 2019 and the duly filed letter dated 28/09/2019.

Further details of this notice are available on website of the company at www.neerajpaper.com and may also be accessed on the Stock Exchange at www.bseindia.com

For Neeraj Paper Marketing Ltd.
 Sd/-
 Punit Sharma
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019
 Company Secretary

CRANEX LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC006603
 Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sara, Opposite Qutab Tower, New Delhi-110016
 Works: 57/1, Site-VI, Industrial Area-I, Sahibabad-201010, Distt. Ghaziabad (U.P.)
 Ph: 0120-3240427, 4167628
 Fax: 91-120-4167630
 Website: www.cranexltd.com
 Email: cranex1@yahoo.com, info@cranexltd.com

In Compliance of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 14th November, 2019 at 03:00 P.M. at the Corporate Office of the Company at 57/1, Industrial Area, Site VI of Sahibabad -201010 (U.P.) to consider and approve, inter-alia, the Unaudited Financial Results of the Company for the Second quarter and Half year ended 30th September, 2019.

The trading window of the Company has been closed from the end of the quarter i.e. w.e.f from 1st October, 2019 and will re-opening on 17th November, 2019.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.cranexltd.com and may also be accessed on the Stock Exchange at www.bseindia.com

By Order of the Board
 For Cranex Limited
 Sd/-
 Prakash Kedia
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019
 Compliance Officer

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

CIN: L99999DL1984PLC019052
 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44 Pitampura, Delhi - 110034.
 Phone No: 011-47527700
 Website: www.agarwalduplex.net

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 13th day of November, 2019 at 11:00 A.M. at the registered office of the company inter-alia, to consider, approve and take on record the Un audited Financial Results of the Company for the half year and quarter ended 30.09.2019.

For this purpose the trading window for director/officer/designated employees/ Promoter covered under the code of conduct for prevention of insider Trading has been already closed with effect from 1st October 2019 till 15th November 2019 and the duly filed letter dated 28/09/2019.

Further details of this notice are available on website of the company at www.agarwalduplex.net and may also be accessed on the Stock Exchange at www.bseindia.com

For Agarwal Duplex Board Mills Ltd.
 Sd/-
 (Neeraj Goel)
 Managing Director
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019
 DIN: 009017498

SHREE RAJASTHAN SYNTAX LTD.

Regd. Office: 'SRSL House', Pulla Bhuwana Road, N.H. No. 8, Udaipur (Raj.): 313004
 CIN: L24302RJ1979PLC001948 Ph.: 0294-2440334 Email: houdr@srsl.in

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Board Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 12th November, 2019 at 4.00 P.M. at the Registered Office of the Company situated at 'SRSL House', Pulla Bhuwana Road, N.H. No. 8, Udaipur. 313004 (Rajasthan) inter alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter (half year) ended on 30th September, 2019.

The information contained in this notice is available on the website of BSE Ltd. (www.bseindia.com) where Company's shares are listed and is also available on the website of the Company (www.srsl.in).

For: Shree Rajasthan Syntax Ltd.
 Sd/-
 Ravina Sani
 Place: Udaipur
 Date: 05th November, 2019
 Company Secretary

MINDA FINANCE LIMITED

(CIN: L67120DL1985PLC021349)
 Regd. Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
 Tel No.: 011 49379331, Website: www.mindafinance.com, E-mail: info@mindagroup.com

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Minda Finance Limited will be held on Monday, November 11, 2019, inter-alia, to consider and approve the Un-audited financial results of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2019.

The notice is also available on the website of the Company www.mindafinance.com and also on the website of stock exchange at www.bseindia.com

For Minda Finance Limited
 Sd/-
 Lalit Khubchandani
 Place: Delhi
 Date: November 5, 2019
 Company Secretary

CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off: 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, Okhla Industrial Area Phase-II, Old Ishwar Nagar, New Delhi-20, Tel: 011-40551200
 *Fax No. 011-40551281 *Website: www.cordscable.com
 *E-mail: cci@cordscable.com
 *CIN: L74999DL1991PLC048092

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that 189th meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 12, 2019 at 12:00 noon to consider and approve, inter alia,

- The Un-Audited Financial Results along with Limited Review Report for the Second Quarter/Half Year ended on September 30, 2019.
- The Statement of Assets and Liabilities for the Half Year ended on September 30, 2019.

The above information is also available on the website of the company viz. www.cordscable.com and the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the securities of the Company was closed for all the designated persons and their immediate relatives (as defined in the Code) from October 01, 2019 till 48 hours after the declaration of the financial results of the Company for the Second Quarter/Half Year ended September 30, 2019.

By order of the Board of Directors
 For Cords Cable Industries Limited
 Sd/-
 Garima Pant
 Place: New Delhi
 Date: November 05, 2019
 Company Secretary

URJA GLOBAL LIMITED

CIN: L67120DL1985PLC048983
 Regd. Off: Office No.915, Pearls Omase Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi 110034
 Phone No: +91 11 4558 827
 Website: www.urjaglobal.in, E-mail: cs@urjaglobal.in

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of M/s URJA GLOBAL LIMITED is scheduled to be held on Wednesday, the 13th day of November, 2019 at 11:00 A.M. at Corporate Office of the Company to inter-alia consider and approve the Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter & Half Year ended on 30th September, 2019.

Further details will be available on the website of the Company i.e. at www.urjaglobal.in and also on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com

For Urja Global Ltd.
 Sd/-
 Kanika Arora
 Place: New Delhi
 Date: 04.11.2019
 Company Secretary

UJALA COMMERCIALS LIMITED

CIN: L51990DL1985PLC021397
 Regd. Off: A-6/43B, 1st Floor,
 Paschim Vihar, New Delhi-110063,
 E-mail id: csujala.commercial@gmail.com,
 Website: www.ujalacoin.in, Ph: 011-49879687

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 5th Meeting of 2019 of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 13, 2019, at 11:00 A.M. at registered office of the Company inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2019 and any other item with the permission of Chair.

The said Notice and the Financial results may be accessed under Investors Relations Section on the website of the Company and Stock Exchange i.e. www.ujalacoin.in and www.mseil.in respectively.

For Ujala Commercial Limited
 Sd/-
 Ganesh Ray
 Director
 DIN: 00463635
 Place: New Delhi
 Date: 05.11.2019

TITAN BIOTECH LIMITED

CIN: L74999DL1992PLC013387
 Reg. Office: A-902 A, RICO, INDL AREA PHASE-III, BHIWADI-301019,
 Email id: cs@titanbiotechltd.com
 Tel No: 011-27355742
 Website: www.titanbiotechltd.com

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 13th November, 2019 at 9:03-9:09, 9th Floor, Bigios Tower, Netaji Subhash place, Delhi-110034 to consider unaudited quarterly financial results for the quarter ended on 30th September, 2019.

We further inform that the 'Trading Window' as per SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 for dealing in securities of the Company by designated persons will be closed from 5th November, 2019 to 15th November, 2019.

For Titan Biotech Limited
 Sd/-
 Charanjit Singh
 Company Secretary
 M.No A12726
 Place: New Delhi
 Date: 04/11/2019

CANARA BANK

BRANCH OFFICE : RAJLU GARNHI(4548),
 TEHSIL GAUNNOR, DISTT. SONEPAT

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated, 23/07/2019 calling upon the borrower M/s Catterpillar (P) Pvt. Mr. Neeraj Sri Ashok Kumar and Guarantor Smt. Rajwanti W/o Hoshiyar Singh to repay the amount mentioned in the notice, being Rs.11,40,868.00 (Rupees Eleven lakh forty thousand eight hundred sixty eight only) for cash credit limit & Rs. 3,40,106.80 (Three lakh forty thousand one hundred six and eighty paise only) for term loan with 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 2nd day of November of the year 2019.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The legal heirs of the borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK RAJLU GARNHI SONEPAT for an amount of Rs.11,40,868.00 (Rupees Eleven lakh forty thousand eight hundred sixty eight only) for cash credit limit & Rs. 3,40,106.80 (Three lakh forty thousand one hundred six and eighty paise only) for term loan and interest thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
 All that part and parcel of the property comprised 932/1, constructed over the western portion of plot no. 11, measuring 90 Sq. yards, with dimension: East- 38.33 feet, West-37 feet, North and South-21.5 feet which is part of Kharsa No.4490.6795 on Rohtak-Jind Road, in Kabir Colony within M.C. Rohtak Haryana in the name of Smt. Rajwanti w/o Hoshiyar Singh. BOUNDARIES: EAST: Remaining Portion of plot no.11, WEST: plot no. 12, NORTH: Road, SOUTH: House of Dharanbir

Date: 05.11.2019 Place: Rajlu Garhi Distt. Sonapat Authorised Officer, (Canara Bank)

CANARA BANK

BRANCH OFFICE : RAJLU GARNHI(4548),
 TEHSIL GAUNNOR, DISTT. SONEPAT

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated, 23/07/2019 calling upon the legal heirs of borrower Late Shri Munni Ram S/o Sri Teku being Smt. Saroj (wife), Sri Sunil Kumar(Son), Nandulsoni, (Ms. Rituladharani) & Ms. Ishaidharani to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 7,55,060.00 (Rupees Seven lakh fifty five thousand sixty only) for housing loan within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The legal heirs of the borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on this 2nd day of November of the year 2019.

The legal heirs of the borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CANARA BANK RAJLU GARNHI SONEPAT for an amount of Rs.7,55,060.00 (Rupees Seven lakh fifty five thousand sixty only) for housing loan and interest thereon.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
 All that part and parcel of the property comprised Khawat No. 102/98 Khatta No. 127 Killa No. 18/16/2 (7-16) Village Bhogipur Tehsil Gansar, Distt Sonapat Haryana in the Name of Late Shri Munni Ram, s/o Teku. BOUNDARIES: EAST: House of Mr. Sukhpal, WEST: property of Sri Rishi Parkash, NORTH: Phachayat Land, SOUTH: Road

Date: 05.11.2019 Place: Rajlu Garhi Distt. Sonapat Authorised Officer, (Canara Bank)

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(A Government of India Undertaking)
 Branch : Chandawali, EMAIL :- bm1268@obc.co.in

(Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Oriental Bank of Commerce under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice on below mentioned dates, calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on below mentioned dates.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and the dealing with the properties will be subject to the charge of Oriental Bank of Commerce for an amount mentioned in the notice.

The borrower's/guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

Name of Account (Borrowers)

Demand Notice Date

Possession Notice Date

Description of the Immovable Property

Mr. Bhagwat Dayal and Rajni Bala

20-03-2019

05-11-2019

Rs. 8,71,889.00 as on 31.10.2019 and interest thereon

All that part and parcel of property consisting of property: EQM of Property Situated at Gali No 1 Opp-FCI Godwn Krishna Colony Ram Nagar Railway Road Palwal Area ad Measuring 111 Sq.Yds, which is The Forming Part of 107 Killa No 3(7-15) To The Extent of 15620 Standing in the name of Smt. Men Wati W/o Bhim Singh within the registration Sub Registrar Palwal District Palwal, Bounded as : North : House Sh Mahesh, East : Gali, South: H No Sh Manu Ram Pehra, West: H No Sh Keshav

Date : 05-11-2019, Place : Faridabad (Haryana)

Authorised Officer, Oriental Bank of Commerce

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(Formerly known as AU FINANCIER'S (INDIA) LIMITED) (CIN:L36911RJ1996PLC01381)
 Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the loan account became NPA therefore the Authorized officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers/ Mortgagees/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit the mortgage amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below. Therefore you the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provision of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the mortgage properties/secured assets as given below.

Borrowers to note that after receipt of this notice,

10,000 रुपए की रिश्त ले रहा पटवारी गिरफ्तार

जयपुर, 5 नवंबर । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में पटवारी को 10,000 रुपए

की रिश्त लेते हुए मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी पटवारी गोविंद राम ने पारसमल और डूंगर सिंह से एक

कृषि भूमि के परिवर्तन के एवज में 40,000 रुपए की रिश्त मांगी थी। परिवारी ने इस बारे में ब्यूरो में शिकायत की। ब्यूरो की टीम ने

पटवारी को मंगलवार को कथित रूप से 10,000 रुपए की रिश्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। (भाषा)

ओडीशा में भारी बारिश की आशंका, 15 जिलों में अलर्ट जारी
भुवनेश्वर, 5 नवंबर । ओडीशा सरकार ने आगामी मंगलवार को राज्य के 15 जिलों को अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में विक्षोभ के कारण गुरुवार से भारी वर्षा की आशंका के बीच संभावित गुरुवार से भारी बारिश होने की आशंका जताई है।

जयपुर, 5 नवंबर । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्त लेते हुए मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी पटवारी गोविंद राम ने पारसमल और डूंगर सिंह से एक

विकास ईकोटेक लिमिटेड
(पूर्व का विकास ग्लोबलवनि लिमिटेड)
सीआईएन : L65999DL1984PLC019465
पंजीकृत कार्यालय : विकास अपार्टमेंट, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
दूरभाष नं. : 011-43144444
ई-मेल: cs@vikasecotech.com, URL : www.vikasecotech.com

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 14 नवम्बर, 2019 को 11:30 पूर्वाह्न इसके पंजीकृत कार्यालय 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 पर आयोजित की जाएगी।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.vikasecotech.com तथा एक्सचेंजों की वेबसाइट www.ncscindia.com तथा www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
(पूजा वंजानी)
(कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

विकास मल्टीकोरप लिमिटेड
सीआईएन : U25111DL1995PLC073719
पंजीकृत कार्यालय : जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
दूरभाष नं. : 011-40450110
ई-मेल: cs@vikasmulticorp.com, URL : www.vikasmulticorp.com

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 03:30 अपराह्न इसके पंजीकृत कार्यालय विकास अपार्टमेंट, जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 पर आयोजित की जाएगी।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.vikasmulticorp.com तथा एक्सचेंजों की वेबसाइट www.ncscindia.com तथा www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
(पूजा वंजानी)
(कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

विकास मल्टीकोरप लिमिटेड
सीआईएन : U25111DL1995PLC073719
पंजीकृत कार्यालय : जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
दूरभाष नं. : 011-40450110
ई-मेल: cs@vikasmulticorp.com, URL : www.vikasmulticorp.com

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 03:30 अपराह्न इसके पंजीकृत कार्यालय विकास अपार्टमेंट, जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 पर आयोजित की जाएगी।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.vikasmulticorp.com तथा एक्सचेंजों की वेबसाइट www.ncscindia.com तथा www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
(पूजा वंजानी)
(कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

DHANVANTRI JEEVAN REKHA LTD.
1, Saket, Meerut - 250 003, Phn-0121-2648151-52, 2651801 Fax-0121-2651803
e-mail dhanvantri.hospital@gmail.com : website:www.djrl.org

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 Read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 NOTICE is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 13th day of November, 2019 at 11:00 A.M. at Meerut, inter alia, to, consider and approve unaudited financial results of the Company for the second quarter ended September 30, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <http://www.djrl.org.in> and may also be accessed on the Stock Exchange websites at <http://www.bseindia.com>.

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
(प्रकाश चन्द प्रालान)
(निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

For Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.
Sd/-
(Dr. V.S. Phul) Managing Director

मिन्डा फाइनेंस लिमिटेड
(सीआईएन : L67120DL1985PLC021349)
पंजीकृत कार्यालय : जी-64/1, वजीपुर इण्डियन एस्टेट, दिल्ली-110052
दूरभाष नं. : 011 49793371, वेबसाइट : www.mindafinance.com, ई-मेल : latik@mindagroup.com

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए मिन्डा फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.mindafinance.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते मिन्डा फाइनेंस लिमिटेड
ह./-
ललित खूबचन्दानी
कम्पनी सचिव

स्थान : दिल्ली
तिथि : 5 नवम्बर, 2019

अपूरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
(सीआईएन : L65999DL1983PLC016713)
पंजीकृत कार्यालय : लोटेस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24, भिवाड़ी अलवर बाईपास 75 मीटर रोड, धारखेड़ा, रिवाड़ी 123401
दूरभाष नं. : +91-7419885077
ई-मेल आईडी : newtimeinfra2010@gmail.com ; वेबसाइट : www.newtimeinfra.in

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए अपूरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते अपूरवा लिजिंग फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
ह./-
पवित्र कपूर
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
चन्दावली, ई-मेल: bm1268@obc.co.in

नियम 8(1) अधिव्यवस्था सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
जबकि अधोहासकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्वित्त एवं प्रतिभूति हित प्राप्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राथमिक अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहासकारी ने इसमें योग्य वर्गीकृत सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को से लिया है।
उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्तु बकाया राशि के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एवट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिस्थितियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खाते का नाम (कर्जदार)	मांग सूचना की तारीख	कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रु. में)
श्री भागवत दयाल और राजनी बाला	20-03-2019	05-11-2019	रु. 8,71,889.00 तिनांक 31.10.2019 तक होने वाला ब्याज

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि साम्यिक बंधक सम्पत्ति माली नं. 1, एसीआई गोदाम के विपरीत कच्चा कोलनी राम नगर, रवेले रोड, क्षेत्रफल 111 वर्ग गज, जो 15/620 की सीमा तक 107 किता नम्बर 3 (7-15) का हिस्सा है यह सम्पत्ति श्रीमती मन वती पत्नी भीम सिंह के नाम पर सार रिजिस्ट्रार पञ्चवत जिला पलवल में पंजीकृत, चौदीह : उत्तर में – श्री मेरेश का मकान, पूरब में – नाली, दक्षिण में – श्री मेनु राम पेहरा का मकान, पश्चिम में – श्री केशव का मकान

अचल सम्पत्ति का विवरण

S. No.	Particulars	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	1,927.41	1,992.69	1,694.29	3,920.10	3,423.59	6,811.09
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	71.29	307.21	(94.51)	378.50	111.93	1,042.94
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	71.29	307.21	(94.51)	378.50	111.93	1,042.94
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	99.19	310.99	60.15	410.18	409.93	1,138.73
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	127.67	303.77	43.08	431.44	319.69	1,040.91
6	Equity Share Capital	321.32	321.32	321.32	321.32	321.32	321.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	20,215.66
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	3.09	9.68	1.87	12.77	12.76	35.44
1	Diluted	3.09	9.68	1.87	12.77	12.76	35.44

Amrit Corp. Ltd.
CIN: L15141UP1940PLC000946
Regd. Office : CM-28, 1st Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad - 201 009 (U.P.)
Corp. Office: Amrit Corporate Centre, A-95, Sector-65, NOIDA - 201 309 (U.P.)
Tel. No.: 0124-4506900, Fax No.: 0124-4506910, Website: www.amritcorp.com, Email: info@amritcorp.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Rs. in Lakh except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Half-Year ended		Year ended
		30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	
1	Total Income from Operations	1,927.41	1,992.69	1,694.29	3,920.10	3,423.59
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	71.29	307.21	(94.51)	378.50	111.93
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	71.29	307.21	(94.51)	378.50	111.93
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	99.19	310.99	60.15	410.18	409.93
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	127.67	303.77	43.08	431.44	319.69
6	Equity Share Capital	321.32	321.32	321.32	321.32	321.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	3.09	9.68	1.87	12.77	12.76
1	Diluted	3.09	9.68	1.87	12.77	12.76

NOTES:
1 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2019 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.amritcorp.com).
2 The detailed Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 05, 2019. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the above Unaudited Financial Results and the same with the Limited Review Report of the Auditors have been filed with BSE Ltd.
3 The figures of the previous period/year have been regrouped/recast, wherever considered necessary, to conform to current year's classification.

for Amrit Corp. Limited
Sd/-
(N. K. Bajaj)
Chairman & Managing Director

Dated: November 05, 2019
Place : Noida

Parsvnaths
पंजीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालय : पार्श्वनाथ टॉवर, शाहदरा मेट्रो स्टेशन के निकट, शाहदरा, दिल्ली-110032
फोन नं. 011-43010500, 011-43005100, फैक्स नं. 011-43050473
ई मेल पता : secretarial@parsvnath.com, वेबसाइट : www.parsvnath.com

सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के नियम 47 (1) (ए) के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, नवंबर 12, 2019 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडलाइन एंड नॉन-स्टैंडलाइन) पर विचार एवं अनुमोदन किए जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी (www.parsvnath.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.ncscindia.com) तथा बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।

इस संबंध में, सेबी (इंसायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015, के अनुपालन में कम्पनी द्वारा अंगीकृत निर्दिष्ट व्यक्तिओं एवं उनके निकटस्थ सम्बंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियम, नियमों तथा सूचना के लिये कम्पनी की आधार संहिता ("संहिता") के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग निषेध संहिता के अन्तर्गत उक्त व्यक्तियों के लिये अक्टूबर 1, 2019 से बंद है तथा पुनः सूचित किया जाता है कि ट्रेडिंग निषेध, उक्त व्यक्तियों के लिये गुरुवार, नवम्बर 14, 2019 तक बंद रहेगी। यह संहिता कम्पनी की वेबसाइट www.parsvnath.com पर उपलब्ध है।

पार्श्वनाथ डेवेलपर्स लिमिटेड
हस्ता/—
(राजेश कपूर)
(प्रबंध निदेशक)

तिथि: 05 नवम्बर, 2019
स्थान: दिल्ली

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. एक 2084

उजाला कॉमर्शियल्स लिमिटेड
सीआईएन : L51909DL1985PLC021397
पंजीकृत कार्यालय : ए-6/343वीं, प्रथम तल, परियम विहार, नई दिल्ली-110063
ई-मेल आईडी : csujala.commercial@gmail.com
वेबसाइट : www.ujalacm.in, दूरभाष नं. : 011-49879687

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न इसकी पंजीकृत कार्यालय विकास अपार्टमेंट, जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 पर आयोजित की जाएगी।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ujalacm.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.ncscindia.com तथा www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते उजाला कॉमर्शियल्स लिमिटेड
ह./-
(राजेश कपूर)
(प्रबंध निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 5.11.2019

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
सीआईएन : L24239HR1984PLC040797
पंजीकृत कार्यालय : लोटेस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24, भिवाड़ी अलवर बाईपास 75 मीटर रोड, धारखेड़ा, रिवाड़ी 123401
दूरभाष नं. : +91-7419885077
ई-मेल आईडी : newtimeinfra2010@gmail.com ; वेबसाइट : www.newtimeinfra.in

सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
ह./-
पवित्र कपूर
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

UNIMODE OVERSEAS LIMITED
304A/10178, 11th Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com, Website: www.unimodeoverseas.in
CIN No. L51908DL1992PLC048444, Tel. No. 011-43685156

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR), 2015 the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 14th November, 2019, at 03:00 P.M. at the registered office of the Company at 304A/10178, 11th Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2019.

This information is also available on website of Company at www.unimodeoverseas.in and website of BSE Limited at www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board
M/s Unimode Overseas Limited
Sd/-
Preeti Gupta
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 05.11.2019

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
बैंक ऑफ कॉमर्स, कारखाना पोस्ट ऑफिस के सामने, नई दिल्ली-110019
सीआईएन : एल8101डीएल1989प्लसी034528
फोन : +91-26413012 / 26238986
फैक्स : +91-26465527

सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 29 एवं 47 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 14 नवम्बर, 2019 को अप. 04:00 बजे किशोर हाउस, अग्रिम रोड, गान्धीनगर - 132103, हरियाणा में आयोजित की जाएगी, जिसमें 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और सांख्यिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा रिपोर्ट विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ribatextiles.com तथा स्टॉक एक्सचेंज - बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वर्षा रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
हस्ता/—
(नेहा डूडे)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05-11-2019 एम. नंबर : A46655

Form No. 5
Debts Recovery Tribunal Lucknow
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 1200/2019 DATED : 24-10-2019 (Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Bank and Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993)

Original Application No. 1200 of 2019

STATE BANK OF INDIA
.....Applicant

Versus
Mr. Arivind Kumar & Anr.
.....Defendant To,

Mr. Arivind Kumar S/o Sh. Bhagwan Dass, R/o B-203, Plot No. 84, Kharai Dharma Apartment, Sector-55, Gurgaon, Haryana

2. M/s Idea Builders Pvt Ltd. through its Managing Director / Authorised Signatory having its registered office at : C-294, 1st Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 28-11-2020 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

ड्यूरपैक लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC025835
पंजी. कार्यालय : 3123, सेक्टर-डी, पॉकेट-III, वस्तु कुंज, नई दिल्ली-110070
टेली. 011- 26181611
ई-मेल: info@duropackindia.com
वेबसाइट : www.duropackindia.com

सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के नियम 29 के प्रावधानों के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि ड्यूरपैक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के प्रशा. कार्यालय जी-4/160, समदरजंग प्लेस, नई दिल्ली-110029 में 4.00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अलावा 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी